



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239215
CG-DL-E-29092022-239215

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 658]
No. 658]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ASVINA 7, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 740(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 20/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28 सितम्बर, 2022, जिसे सा.का.नि. 735(अ), दिनांक 28 सितम्बर, 2022, के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में :-

- पृष्ठ 5 में, पंक्ति 22 में, “को” शब्द के स्थान पर “को 01 अक्तूबर 2022 से” शब्दों को पढ़ें।

[फा. सं.सीबीआईसी-20013/1/2022-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 29th September, 2022

G.S.R. 740(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 20/2022-Central Tax, dated the 28th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 735 (E), dated the 28th September, 2022,:

- at page 5, in line 33, *for* the figure “2018”, *read* “2018, with effect from the 1st day of October, 2022”.

[F. No. CBIC-20013/1/2022-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.